

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2016—ज्येष्ठ 5, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मई 2016

फा. क्र. 17 (ई) 1967-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) हेतु 132-घोड़ाडोंगरी विधान सभा उपचुनाव 2016 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

132-घोड़ाडोंगरी विधान सभा उपनिर्वाचन 2016 हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव (जिला बैतूल)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रस्तावित है	किसके कार्य हेतु			
					सेक्टर	आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट	स्थैतिक निगरानी	उड़न दस्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री एम. एल. कुलेष	उपवनमंडलाधिकारी ताप्ती उत्पादन वनमंडल बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-1	132	175, 2, 3, 1	घोड़ाडोंगरी (कुल-04)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	श्री के. व्ही. सोरते	उप पंजीयक सहकारिता बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-2	132 घोड़ाडोंगरी	4,5,7,8, (कुल-04)		
3	श्री आई. एस. गाडरिया	उपवनमंडलाधिकारी तावड़ी वनमंडल पश्चिम बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-3	132 घोड़ाडोंगरी	177,178,176, 173,174, 6 (कुल-7)		
4	श्री आर. एम. कुरैशी	कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग बैतूल	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-4	132 घोड़ाडोंगरी	179,180,131, 184,193,132, 195,194,133, (कुल-09)		
5	श्री विपिन वामनकर	अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन संभाग बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-5	132 घोड़ाडोंगरी	196,197,198, 200,199,203, 202,201,226, (कुल-09)		
6	श्री जी. डी. गुलबासे	उप संचालक पशु चिकित्सा, बैतूल	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-6	132 घोड़ाडोंगरी	204,207,205, 206,208,192, 190,191,189 (कुल-09)		
7	श्री विकास लाल	सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-7	132 घोड़ाडोंगरी	187,185,172, 165,186,188, 168,167,164, 163,162 (कुल-11)		
8	श्री सी. एम. एस. ठाकुर	सहा. संचालक मत्स्योद्योग, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-8	132 घोड़ाडोंगरी	9,10,11,166, 170,12,13,14, 16,169,15 (कुल-11)		
9	श्री के. के. सोनी	सहा. प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स. प्रा. परियोजना इकाई-1 बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-9	132 घोड़ाडोंगरी	20,18,21,17, 19 (कुल-04)		
10	श्री सी. एल. पंडित	सहा. प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स. प्रा. परियोजना इकाई-1 बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-10	132 घोड़ाडोंगरी	27,25,28,155, 156,158,157 (कुल-07)		
11	श्री वी. के. क्षेत्रपाल	महा. प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स. प्रा. परियोजना इकाई-1 बैतूल	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-11	132 घोड़ाडोंगरी	26,22,24,23, 30,29,31,32 33,34, (कुल-10)		
12	श्री डी. एस. मीणा	जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-12	132 घोड़ाडोंगरी	143,141,142, 140,139,35, 154,153,52, 159 (कुल-10)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	श्री बी. पी. बाथम	उप वनमंडलाधिकारी वन मंडल उत्तर, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-13	132	255,213,209, घोड़ाडोंगरी 210,160,161, 263,261,262, 256,211,212 (कुल-12)		
14	श्री एम. एल. विश्वकर्मा	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-14	132	224,225,217, घोड़ाडोंगरी 219,218, 223, 220, 221, 222, 215, 216 (कुल-10)		
15	श्री एस. एस. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-15	132	231, 227, 228, घोड़ाडोंगरी 229, 230, 232, 233,235, 234 (कुल-09)		
16	श्री एन. आर. राठौर	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-16	132	243, 242, 238, घोड़ाडोंगरी 236, 237, 240, 241 (कुल 08)		
17	श्री अनिल शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, भैंसदेही.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-17	132	244, 245, 246, घोड़ाडोंगरी 247, 248, 249, 250, 251, 270 (कुल 09)		
18	श्री एम. एस. सोलंकी	उप वनमंडलाधिकारी वन मंडल उत्तर, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-18	132	264, 265, 266, घोड़ाडोंगरी 267, 252, 253, 244, 254, 275 (कुल 09)		
19	श्री एस. डी. सोनवानी	उप वनमंडलाधिकारी बैतूल उत्पादन वनमंडल, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-19	132	277, 281, 280, घोड़ाडोंगरी 279, 278, 273 271, 269, 268, 272, 274 (कुल 11)		
20	श्री के. के. देशमुख	सहायक संचालक, पशु चिकित्सा, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-20	132	297, 296,294, घोड़ाडोंगरी 315, 295, 289, 303, 283, 290, 276 (कुल 10)		
21	श्री व्ही. पी. सिंग	सहायक प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.प्राधि.ई.-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-21	132	293, 292, 249, घोड़ाडोंगरी 148, 260, 291, 258, 259, 257 (कुल 09)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	श्री आर. एस. गौतम	सहा. प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.प्राधि.ई.-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-22	132	116, 115, 119, घोड़ाडोंगरी 120, 117, 118, 122, 147, 146, 144, 145, 150, 151 (कुल 13)		
23	श्री आर. एस. श्रीवास्तव	उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल उत्तर, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-23	132	106, 107, 108, घोड़ाडोंगरी 123, 124, 121, 133, 109, 110, 111, 112, 113, 114 (कुल 13)		
24	श्री एच. सी. बघेल	उप वनमंडलाधिकारी, मुलताई वनमंडल दक्षिण, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-24	132	137, 36, 39, 37, घोड़ाडोंगरी 38, 136, 138, 135, 132, 134, 131 (कुल 11)		
25	श्री एल्विन बर्मन	उप वनमंडलाधिकारी, भैंसदेही वनमंडल दक्षिण, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-25	132	40, 41, 42, घोड़ाडोंगरी 129, 130, 43 (कुल 06)		
26	श्री हरिशंकर माझी	प्रबंधक वन विकास परियोजना रामपुर भतौडी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-26	132	48, 47, 49, 46, घोड़ाडोंगरी 44, 45 (कुल 06)		
27	श्री एस. के. कोडापे	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-27	132	52, 53, 57, 56, घोड़ाडोंगरी 55, 54 (कुल 06)		
28	श्री चयेन्द्र बुडेकर	परियोजना अधिकारी, बाल विकास परि. आमला.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-28	132	51, 62, 61, 60, घोड़ाडोंगरी 59, 50, 63, 58 (कुल 08)		
29	श्री के. एस. रन्धावा	उप वनमंडलाधिकारी, भौरा उत्पादन वनमंडल, बैतूल.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-29	132	65, 67, 68, 69 घोड़ाडोंगरी 70, 78, 72, 71 (कुल 08)		
30	श्री के. एन. शर्मा	परियोजना अधिकारी, बाल विकास परि. आठनेर.	प्रथम श्रेणी	सेक्टर-30	132	125, 126, 127, घोड़ाडोंगरी 128, 80, 79, 66,77,73,75, 74, 76, (कुल 12)		
31	श्री के. एस. मालवीय	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-21	132	82, 83, 81, 86, घोड़ाडोंगरी 85,87 (कुल 06)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	श्री आर. एल. कोकाट	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-32	132	92, 91, 84, 90, घोड़ाडोंगरी 88, 89, 64, (कुल 07)		
33	श्री एल. के. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रभातटटन.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-33	132	93,94,95,97, घोड़ाडोंगरी 100, 331, 98, 99, 96, 103, 104, 105 (कुल 12)		
34	श्री आर. एन. यादव	सहायक यंत्री, जल संसाधन, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-34	132	327, 328, 339, घोड़ाडोंगरी 340, 338,336, 333, 337, 329, 335, 334,332 (कुल 12)		
35	श्री एस. के. राठौर	सहायक यंत्री, जल संसाधन, शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-35	132	317, 318,330, घोड़ाडोंगरी 321, 102, 101, 316, 319 (कुल 08)		
36	श्री एस.आर. सेन्दाणे	श्रम पदाधिकारी, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-36	132	298,299,300, घोड़ाडोंगरी 310, 309,302, 301, 312, 313, 314, 311 (कुल 11)		
37	श्री एस.एस. चौहान	परियोजना संचालक (आत्मा) बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-37	132	305, 306, 307, घोड़ाडोंगरी 308, 304, 284, 285, 283, 282, 280, 287 (कुल 11)		
38	श्री एम. के. डेहरिया	सहायक प्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, ईकाई-2, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	सेक्टर-38	132	322,323,324, घोड़ाडोंगरी 325,326,320 (कुल 06)		
39	श्री एस.एल.राउतकर	उप संचालक, उद्यान बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132	घोड़ाडोंगरी		
40	श्री आर. के. द्विवेदी	उप परियोजना, संचालक (आत्मा) बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132	घोड़ाडोंगरी		
41	श्री जी. पी. सिलावट	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132	घोड़ाडोंगरी		
42	श्री के. के. सिंगारे	संभागीय परि. यंत्री, लो.नि. वि.पी.आई.यू., बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132	घोड़ाडोंगरी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	श्री मनोज चौहान	सहायक यंत्री, जल संसाधन, मुलताई.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132			घोड़ाडोंगरी
44	श्री अशोक नागले,	खनि निरीक्षक, बैतूल	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132			घोड़ाडोंगरी
45	श्री राजाराम परमार	उप संभागीय प्रबंधक वन विकास परि., रामपुर भतोडी, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132			घोड़ाडोंगरी
46	श्री गोविन्द मीणा	सहायक संचालक, कृषि बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132			घोड़ाडोंगरी
47	श्री जी. पी. कुदारे	अनुदेशक, वन विद्यालय, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी	रिजर्व	132			घोड़ाडोंगरी

132-घोड़ाडोंगरी विधान सभा उपनिर्वाचन 2016 हेतु नियुक्त स्थैतिक निगरानी टीम एवं उड़नदस्ता के अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव (जिला बैतूल)

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ दिया जाना प्रस्तावित है क्षेत्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	किसके कार्य हेतु		
						स्थैतिक निगरानी टीम	उड़नदस्ता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्री प्रभात मिश्रा	विकास विस्तार अधि., ज.प. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
2	श्री आर.एस. सराठे	ग्रा.कृ.वि.अधि., वरि. वि. कार्या., घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
3	श्री विवेक तुमराम	उपयंत्री, अनु. अधि. ग्रा. यां. से., उपसंभाग, घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
4	श्री महेश कुमार कीर	उपयंत्री, ज.प. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
5	श्री डी. सी. डडोर	ग्रा.कृ.वि. अधि., परि. कृ. वि. अधि., कार्या. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	
6	श्री एम.एल. नागले	ग्रा.कृ.वि. अधि., परि. कृ. वि. अधि., कार्या. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी	132 घोड़ाडोंगरी	132 घोड़ाडोंगरी	-	उड़नदस्ता	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	श्री ए. एल. करछुले	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. वि. अधि., कार्या. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	-	उड़नदस्ता	
8	श्री जी. पी. मस्की	उपयंत्री, अनु. अधि. संसा. उप संभाग घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	-	उड़नदस्ता	
9	श्री बी. आर. झरबडे	उपयंत्री अनु. अधि. संसा. उप संभाग चिचोली.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	-	उड़नदस्ता	
10	श्री एम.एस. परते	डिप्टी रेंजर, वन परि. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
11	श्री एस. डी. झारखंडे	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. विकास अधि., कार्या. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
12	श्री एस.एल. मर्सकोले	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. विकास अधि., कार्या. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
13	श्री सी.आर. झरबडे	उपयंत्री, अनु. अधि. संसा. उपसंभाग, शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
14	श्री सुरेश कुमार मालवीय	मत्स्य निरीक्षक, सहा. संचा. मत्स्य उद्योग बैतूल.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
15	श्री एस. के. सक्सेना	कृ.वि.अधि. साईल कन्जरवेशन, वरि.कृ.वि. अधि. कार्या., घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
16	श्री लालजी कारदे	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. विकास अधि., कार्या. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
17	श्री कैलाश वटके	उपवन क्षेत्रपाल वन परि. शाहपुर.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
18	श्री हरिओम गुप्ता	सह. निरी. सहा. आयु. (अंके.) सहकारिता, बैतूल.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	श्री नितिश पानकर	उपयंत्री, ग्रा.यां.सेवा, आमला.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
20	श्री ए. के. गौर	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. विकास अधि., कार्या. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	
21	श्री आर. के. धाकड़े	ग्रा.कृ.वि. अधि., वरि. कृ. विकास अधि., कार्या. घोड़ाडोंगरी.	द्वितीय श्रेणी 132	घोड़ाडोंगरी	132	स्थैतिक निगरानी टीम	-	

जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल.